



**UPTET**

UTTAR PRADESH BASIC EDUCATION BOARD

**उ.प्र. शिक्षक पात्रता परीक्षा**

**प्राथमिक स्तर**


**भाग—3**

**गणित**



गणित

<b>1- Number System (कांख्या पद्धति)</b>	1
<b>2- Decimal Fraction(दशमलव भिन्ने)</b>	13
<b>3- L.C.M &amp; H.C.F (महत्तम कमापर्वतक एवं लघुतम कमापर्वतक)</b>	20
<b>4- Statistics (कांख्यंकी)</b>	29
<b>5- Time, Distance and train (कामय दूरी और रेलगाड़ी)</b>	34
<b>6- Percentage(प्रतिशतता)</b>	43
<b>7- Simple Interest (काधारण ब्याज)</b>	57
<b>8- Ratio and proportion (अनुपात एवं कामानुपात )</b>	64
<b>9- Time and work (कामय एवं कार्य)</b>	69
<b>10- Calendar (कैलेण्डर)</b>	79
<b>11- Geometry (ज्यामितीय)</b>	85
<b>12- Mensuration (क्षेत्रमिति)</b>	123
<b>13- Profit loss and discount (लाभ - हानि बट्टा )</b>	158
<b>14- Boat and stream(गाव एवं धारा)</b>	179
<b>15- Teaching method of mathematics (गणित की अध्यापन विधि)</b>	186



TopperNotes

Unleash the topper in you

## NUMBER SYSTEM

सम संख्याएँ (Even numbers)  $\Rightarrow$  जो प्राकृत संख्याएँ 2 से भूतिया हैं।

विभक्त हो जाये उन्हें सम संख्याएँ कहते हैं।

जैसे - 32, 46, 54, 90, 96 आदि

विषम संख्याएँ (Odd numbers)  $\Rightarrow$  जो प्राकृत संख्याएँ 2 से

भूतिया विभक्त न हो जाये तो उसी विषम संख्याएँ कहते हैं। जैसे - 23, 25, 27, 29, 31 आदि

अभाज्य संख्याएँ (Prime numbers)  $\Rightarrow$  ऐसी प्राकृत संख्याएँ जिसके

दो के तथा केवल दो गुणमाण हों, अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं।

जैसे - 100 से न्म सभी अभाज्य संख्याएँ नीची दी गई हैं।

2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59,

61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 इनकी संख्या 25 है।

पूरी संख्याएँ  $\Rightarrow$  (Whole numbers)

0 से अनन्त तक संख्याओं को पूरी संख्या कहते हैं।

$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\}$

• सबसे होटी पूरी संख्या = शून्य है।

प्राकृतिक संख्याएँ  $\Rightarrow$  (Natural numbers)

$\{1, 2, 3, 4, 5, \dots, \infty\}$

## जातीय मान (Local Value)

किसी दी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका आपना मान है चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों न हो।  
उदाहरण - संख्या 63578 में 3 का जातीय मान 3 है। 6 का जातीय मान 6 है।

## स्थानीय मान (Place Value)

किसी दी गई संख्या में -  
 इकाई अंक का स्थानीय मान = (इकाई अंक  $\times 1$ )  
 दशाई अंक का स्थानीय मान = (दशाई अंक  $\times 10$ )  
 सैकड़े अंक का स्थानीय मान = (सैकड़े का अंक  $\times 100$ ) आदि

उदाहरण  $\Rightarrow$  संख्या 32567809 में निम्न अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिये ?

(i) 3      (ii) 5      (iii) 7      (iv) 0      (v) 0

प्रति  $\rightarrow$  इन्हें तालिका में निखने पर =

फ्रैट	दसलाख	लाख	दसव्यार	व्याप्त	सैकड़ा	दशाई	इकाई
3	2	5	6	7	8	0	9

$$3 \text{ का स्थानीय मान} = 3 \times 10000000 = 30000000$$

$$5 \text{ का स्थानीय मान} = 5 \times 100000 = 500000$$

$$6 \text{ का स्थानीय मान} = 6 \times 10000 = 60000$$

$$7 \text{ का स्थानीय मान} = 7 \times 1000 = 7000$$

$$8 \text{ का स्थानीय मान} = 8 \times 100 = 800$$

$$0 \text{ का स्थानीय मान} = 0 \times 10 = 0$$

## क्र० नियम सूत्र

- (i)  $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$
- (ii)  $(a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$
- (iii)  $(a+b)^2 + (a-b)^2 = 2(a^2 + b^2)$
- (iv)  $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$
- (v)  $(a^2 \cdot b^2) = (a+b)(a-b)$
- (vi)  $(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b)$
- (vii)  $(a-b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a-b)$
- (viii)  ~~$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$~~
- (ix)  ~~$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$~~

**TopperNotes**  
Unleash the topper in you

$$\textcircled{1} \quad 6704 \times 706 + 6704 \times 214 = ?$$

$$= 6704 \times (706 + 214)$$

$$= 6704 \times 1000 = \boxed{6704000}$$

$$\textcircled{2} \quad 8765 \times 974 - 8765 \times 874 = ?$$

$$= 8765 \times (974 - 874)$$

$$= 8765 \times 100 = \boxed{876500}$$

$$\textcircled{3} \quad 1509 \times 1509 = ?$$

$$(1509)^2 = (1500 + 9)^2$$

$$= (1500)^2 + (9)^2 + 2 \times 1500 \times 9 \quad [ \because (a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab ]$$

$$= 2250000 + 81 + 27000$$

$$= \boxed{2277081}$$

$$\textcircled{4} \quad 1994 \times 1994 = ?$$

$$(2000 - 6)^2 =$$

$$= (2000)^2 + 6^2 - 2 \times 2000 \times 6 \quad [ \because (a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab ]$$

$$= 4000000 + 36 - 24000$$

$$= 4000000 + 36 - 24000 = 4000036 - 24000$$

$$= \boxed{3976036}$$

$$\textcircled{5} \quad 803 \times 803 - 117 \times 117 = ?$$

$$= (803)^2 - (117)^2 \quad [ a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) ]$$

$$= (803 + 117) (803 - 117)$$

$$= 9000 \times 766 = \boxed{766000}$$

$$\textcircled{6} \quad \frac{703 \times 703 \times 703 + 217 \times 217 \times 217}{703 \times 703 - 703 \times 217 + 217 \times 217} = ?$$

प्रति - दिया मता व्यंजक =  $\frac{(703)^3 + (217)^3}{(703)^2 - 703 \times 217 + (217)^2}$

$$= \frac{(a^3 + b^3)}{(a^2 - ab + b^2)}, \text{ जहाँ } a = 703$$

$$(a^2 - ab + b^2) \quad \text{तथा } b = 217$$

$$= \frac{(a+b)(a^2 + b^2 - ab)}{(a^2 - ab + b^2)}$$

$$\Rightarrow (a+b) = (703 + 217) = \boxed{1000}$$

$$\textcircled{7} \quad \frac{693 \times 693 \times 693 - 303 \times 303 \times 303}{693 \times 693 + 693 \times 303 + 303 \times 303} = ?$$

प्रति - दिया मता व्यंजक =  $\frac{(693)^3 - (303)^3}{(693)^2 + (303)^2 + (693 \times 303)}$

$$= \frac{a^3 - b^3}{a^2 + b^2 + (ab)}$$

$$= \frac{(a-b)(a^2 + b^2 + ab)}{(a^2 + b^2 + ab)}$$

$$= (a-b)$$

$$= 693 - 303$$

$$= \boxed{390}$$

⑧  $(476 \times 198 \times 359 \times 242)$  में इकाई का अंग या दोगा?

उत्तर → यहाँ मई संख्याओं के इकाई ठाकौं जा गुणनफल =

$$(6 \times 8 \times 9 \times 2) = 864$$

[अतः अभीष्ट अंक = 4]

⑨.  $(3527)^{654}$  में इकाई ठाकौं या दोगा?

उत्तर → अभीष्ट अंक  $(7)^{654}$  में इकाई ठाकौं

$$= [(7^4)^{163} \times 7^2] \text{ में इकाई ठाकौं}$$

$$= [1 \times 49] \text{ में इकाई ठाकौं} = 49 = 9$$

∴  $(3527)^{654}$  में इकाई ठाकौं अंक = 9.

⑩  $(765 \times 641 \times 357)$  में इकाई अंक या दोगा?

765 का इकाई अंक =  $(7^4)^{16} \times 7$  का इकाई अंक  $(1 \times 7) = 7$

641 का इकाई अंक = 6

357 का इकाई अंक =  $(3^4)^{14} \times 3$  का इकाई अंक  $= (1 \times 3) = 3$

अभीष्ट अंक =  $(7 \times 6 \times 3)$  का इकाई ठाकौं = 126 का इकाई अंक = 6

$$\begin{aligned}
 ① & \left( 1\frac{1}{2} + 11\frac{1}{2} + 111\frac{1}{2} + 1111\frac{1}{2} \right) = ? \\
 & = \left( 1 + \frac{1}{2} + 11 + \frac{1}{2} + 111 + \frac{1}{2} + 1111 + \frac{1}{2} \right) \\
 & = (1+11+111+1111+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}) \\
 & = (1234+1+1) \\
 & = \boxed{1236} \text{ ans}
 \end{aligned}$$

$$② \left[ \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{99 \times 100} \right] = ?$$

$$\left[ 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{99} - \frac{1}{100} \right]$$

$$\text{ans } \left[ \frac{99}{100} \right]$$

$$③ \left( 1 - \frac{1}{2^2} \right) \left( 1 - \frac{1}{3^2} \right) \left( 1 - \frac{1}{4^2} \right) \dots \left( 1 - \frac{1}{19^2} \right) \left( 1 - \frac{1}{20^2} \right) = ?$$

$$\left( 1 - \frac{1}{2} \right) \left( 1 + \frac{1}{2} \right) \left( 1 - \frac{1}{3} \right) \left( 1 + \frac{1}{3} \right) \left( 1 - \frac{1}{4} \right) \left( 1 + \frac{1}{4} \right) \dots \left( 1 - \frac{1}{19} \right) \left( 1 + \frac{1}{19} \right) \left( 1 - \frac{1}{20} \right) \left( 1 + \frac{1}{20} \right)$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{4}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{5}{4} \times \dots \times \frac{18}{19} \times \frac{20}{19} \times \frac{19}{20} \times \frac{21}{20}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{21}{20}$$

$$= \frac{21}{40} = \boxed{0.525}$$

संख्या 536487 में निम्न अंकों के जातीय मान लिखें?

- (i) 5      (ii) 4      (iii) 8.

$$5 \text{ का जातीय मान} = 5$$

$$4 \text{ का जातीय मान} = 4$$

$$8 \text{ का जातीय मान} = 8$$

### विभक्ति के नियम

~~संख्याओं~~ में भाग संक्रिया (Division on numbers)

माना किसी संख्या  $a$  को संख्या  $b$  के विभक्त करने पर भागफल  $q$  तथा शेषफल  $r$  है तब —

$a$  = भाग्य (dividend)

$b$  = भाजक (divisor)

$q$  = भागफल (quotient)

$r$  = शेषफल (remainder)

$$b) \overline{) a} ( q \\ r$$

$$\boxed{\text{भाग्य} = (\text{भाजक} \times \text{भागफल}) + \text{शेषफल}}$$

## विश्वकृत तीनों के नियम →

2 से - यदि किसी सं० जा अंक 0, 2, 4, 6, 8 की, तो वह सं० 2 से पूर्णतया विभक्त होगी

3 से - यदि दी गई सं० के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभक्त हो जाए

5 से - यदि दी गई सं० के अंतिम दो अंक 5 से पूर्णतया विभक्त हो।

5 से - यदि दी गई सं० के इकाई का अंक 5 अथवा 0 की।

6 से - यदि दी गई सं० 2 और 3 कीनों से पूर्णतया विभक्त हो।

7 से - यदि इकाई अंक जो छोड़कर शेष बची सं० में से इकाई जा दुगुना धाता देने पर बची सं० 7 से विभक्त हो जाए। गई सं० 7 से विभक्त होगी।

8 से - यदि दी गई सं० के अंतिम तीन अंक 8 से पूर्णतया विभक्त हो।

विभक्त हो।

9 से - यदि दी गई सं० के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभक्त हो।

10 से - यदि दी गई सं० जा अंतिम अंक शून्य हो।

11 से - जोई भी सं० 11 से विभाजित होगी यदि उसके सम

स्थान के अंकों का योग जा अक्तर या तो 0 की था। 11 से

विभाजित हो।

① 1043 को किसी संख्या द्वारा भाग देने पर भागफल 11  
तथा शेषफल 20 प्राप्त कीता जाए। भाजक क्या होगा?

$$\text{प्रल} \Rightarrow \text{यहाँ भाज्या} = 1043$$

$$\text{भागफल} = 11$$

$$\text{शेषफल} = 20$$

$$\text{भाजक} = \frac{(\text{भाज्य}) - (\text{शेषफल})}{\text{भागफल}} = \frac{1043 - 20}{11} = \frac{1023}{11} = 93$$

② 1000 में होठी से होठी संख्या औन-सी धार्ड जाये कि  
शेष बची संख्या 19 से पूर्णतया विभक्त हो जाये?

$$\text{प्रल. } 1000 \text{ को } 19 \text{ से भाग देने पर शेषफल} = 12$$

$$19) \overline{1000} (52 \quad \boxed{\text{अपील्या संख्या} = 12}$$

$$\begin{array}{r} 95 \\ 50 \\ 30 \\ \hline 12 \end{array}$$

③ किसी सं० को 195 से भाग देने पर 47 शेषफल हो इस सं० को 15 से भाग देने पर शेष क्या होता?

$$\text{प्रल- माना की गई संख्या} = 195 \times q + 47$$

$$\text{तथा शेषफल} = 47$$

$$\begin{aligned} \text{तब की गई संख्या} &= 195 \times q + 47 \\ &= 15 \times (13q) + 15 \times 3 + 2 \\ &= 15 \times (13q+3) + 2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\text{अतः इस सं० को } 15 \text{ से भाग देने पर शेषफल} = 2}$$

### Exercise

$$\textcircled{1} \quad 25 \times 3.25 + 50.4 \div 24 = ?$$

Ans = 83.35

$$\textcircled{2} \quad 7690 + 2956 - 6050 + 4020 = ?$$

Ans = 6094

$$\textcircled{3} \quad 16 \times 12 - 672 \div 21 = ? - 21$$

Ans = 371

$$\textcircled{4} \quad 32.5 \times 450 + 2610 \div 3 - 745.5 = ?$$

Ans = 522

$$\textcircled{5} \quad (106 \times 106 - 94 \times 94) = ?$$

Ans = 2400

$$\textcircled{6} \quad (207 \times 207 + 269 \times 269 - 2 \times 207 \times 269) = ?$$

Ans = 3241

$$\textcircled{7} \quad (456 \times 456 + 144 \times 144 + 2 \times 456 \times 144) = ?$$

Ans = 360000

$$\textcircled{8} \quad \frac{(509+107)^2 - (507-107)^2}{509 \times 107} = ?$$

Ans = 4

$$\textcircled{9} \quad \frac{(931+130)^2 + (931-130)^2}{(931 \times 931) + (130 \times 130)} = ?$$

Ans = 2

$$\textcircled{10} \quad \frac{(735 \times 735 \times 735 - 105 \times 105 \times 105)}{(735 \times 735 + 735 \times 105 + 105 \times 105)} = ?$$

Ans = 1100

Q. ⑩  $(2137)^{753}$  का इकाई अंक क्या होगा?

ans = 7

Q. ⑪  $(22)^{23}$  का इकाई अंक क्या होगा?

ans = 8

Q. ⑫  $(3694)^{1793} \times (615)^{317} \times (844)^{491}$  में इकाई अंक क्या होगा?

ans = 0

Q. ⑬ 867943 में 7 के स्थानीय मान तथा वातिय मान में अन्तर =

ans = 6993

Q. ⑭ 609235 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अन्तर कितना है?

ans = 0970

Q. ⑮ सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सी है?

ans = 2

Q. ⑯ 70 से छोटी अभाज्य संख्याएँ कितनी हैं?

ans = 18

Sol -

### पश्चात्याव भिन्ने

पश्चात्याव भिन्ने = ऐसी दिनका कर 10 की धार में हो, पश्चात्याव भिन्न कहलाती है वह लिखते हैं।

$$\frac{1}{10} = 0.1 \quad \frac{2}{10} = 0.2 \quad \frac{3}{10} = 0.3 \quad \frac{4}{10} = 0.4 \quad \dots \quad \frac{9}{10} = 0.9$$

$$\frac{1}{100} = 0.01 \quad \frac{2}{100} = 0.02 \quad \frac{3}{100} = 0.03 \quad \frac{4}{100} = 0.04 \quad \dots \quad \frac{9}{100} = 0.09$$

$$\frac{11}{100} = 0.11 \quad \frac{12}{100} = 0.12 \quad \frac{13}{100} = 0.13 \quad \frac{14}{100} = 0.14 \quad \dots \quad \frac{99}{100} = 0.99$$

$$\frac{1}{1000} = 0.001 \quad \frac{2}{1000} = 0.002 \quad \frac{3}{1000} = 0.003 \quad \frac{4}{1000} = 0.004 \quad \dots \quad \frac{11}{1000} = 0.011, \frac{12}{1000} = 0.012$$

$$\frac{99}{1000} = 0.099 \quad \frac{100}{1000} = \frac{1}{10} = 0.1 \quad \frac{101}{1000} = 0.101 \quad \frac{102}{1000} = 0.102$$

$$\frac{999}{1000} = 0.999$$

नियम - यह पश्चात्याव भिन्न की ओर में बिना पश्चात्याव भिन्न की लिखे तथा कर में पश्चात्याव भिन्न के नीचे 1 के साथ उल्ली शृंग लगाये जितने पश्चात्याव भिन्न के बाव के अंक हैं।

① प्रत्येक अंश की साधारण अंश में बदले ?

$$\textcircled{i} \quad 0.16 = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

$$\textcircled{ii} \quad 6.75 = \frac{675}{100} = \frac{27}{4} = 6\frac{3}{4}$$

② सरल कीजिये ?

$$\textcircled{i} \quad \frac{9.2}{115} = \frac{92}{115} = \frac{92 \div 23}{115 \div 23} = \frac{4}{5}$$

(92 तथा 115 का मौसू = 23)

$$\textcircled{ii} \quad \frac{0.252}{0.312} = \frac{252}{312} = \frac{252 \div 12}{312 \div 12} = \frac{21}{26}$$

(∴ 252 तथा 312 का मौसू = 12)

③ सरल कीजिये -

$$\textcircled{i} \quad 340 + 36.4 + 9.35 + 0.473 + 0.0067 + 0.8$$

$$\begin{array}{r}
 340 \\
 36.4 \\
 9.35 \\
 0.473 \\
 0.0067 \\
 + 0.8 \\
 \hline
 395.0297
 \end{array}$$

$$\textcircled{ii} \quad 82.064 - 37.8962$$

$$\begin{array}{r}
 82.0640 \\
 - 37.8962 \\
 \hline
 44.1678
 \end{array}$$

④ : सरल करें ?

(i)  $24.7156 \times 12$

$$247156 \times 12 = 2965872$$

अब गुणनफल में दशमलव के 4 स्थान लेने पर -

$$\boxed{= 296.5872}$$

(ii).  $0.000865 \times 43$

$$= 0.865 \times 43 = 37.195$$

अब गुणनफल में दशमलव के 6 स्थान लेने पर -

$$= \boxed{0.037195}$$

⑤ सरल करें ?

(i)  $0.0221 \div 17$

$$\text{दशमलव स्थान} = \frac{0.0221}{17} = \boxed{0.0013}$$

$$17.960 \div 8$$

$$17960 \div 8 = 2246$$

$$\text{दशमलव स्थान} = 3$$

$$\therefore 17.960 \div 8 = \boxed{2.246}$$

(6) (i)  $0.0256 \div 0.016$

$$\frac{0.0256}{0.016} = \frac{25.6}{16} = \boxed{1.6}$$

(ii)  $\underline{0.01845} \div 0.15$

$$\frac{0.01845}{0.15} = \frac{0.01845 \times 100}{0.15 \times 100} = \frac{1.845}{100} = \boxed{0.0123}$$